



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 465] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 28, 1976/कार्तिक 6, 1898
No. 465] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 1976/KARTIKA 6, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

ORDER

New Delhi, the 28th October, 1976

S.O. 696(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertilizer (Movement Control) Order, 1973, namely:—

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Movement Control) Fourth Amendment Order 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Movement Control) Order, 1973, in sub clause (1) of clause 4,—

- (a) in the opening paragraph, the words “or any other person authorised in this behalf by the Central Government or the State Government” shall be omitted;
- (b) in item (a), the words, “or authorise any person to stop and search,” shall be omitted;
- (c) in item (b), the words “or authorise any person to enter and search” shall be omitted;
- (d) in item (c), the words “or authorise the seizure of” and “or authorise the taking of” shall be omitted.

[No. 10-24/73-STU]

P. S. KOHLI, Jt. Secy.

(1992)

कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1976

का० आ० 696 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम उर्वरक (संचलन नियंत्रण) चतुर्थ संशोधन आदेश, 1976 है ।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।
2. उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 में, खण्ड 4 के उपखण्ड (1) में,—
 - (क) आरम्भिक पैरा में 'या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति' शब्दों का लोप किया जाएगा ;
 - (ख) मद (क) में, 'या किसी व्यक्ति को उन्हें रोकने या तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा' शब्दों का लोप किया जाएगा ;
 - (ग) मद (ख) में 'या किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा' शब्दों का लोप किया जाएगा ;
 - (घ) मद (ग) 'या अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत' और 'या करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[संख्या 10-24/73-एस० टी० ५०]

पी० एस० कोहली, संयुक्त सचिव ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ERRATUM

In the Ministry of Home Affairs Notification No. II/14011/78/75-S&P(D.II) dated the 31st August 1976, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II—Section 3—sub-section (ii) as S.O. 578(E), under Issue No. 390, the following correction is to be made in the last line of the English version:—

For "3rd December, 1950" Read "3rd December, 1975".

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976